

नाइलोन-रेशे के उत्पादन के लिए
प्रदान करना

1512. श्री निहाल सिंह : क्या
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम और पते
क्या क्या हैं, जिन्होंने नाइलोन-रेशे के धागे
का उत्पादन करने के लिए दिनांक 15
जनवरी, 1981 को या इससे पहले
केन्द्रीय सरकार को अपने-अपने आवेदन-
पत्र भेजे थे और उनके आवेदन-पत्रों को
निपटारा नहीं किया गया है ; और

(ख) इन आवेदन-पत्रों का निपटारा
करने में अब तक किन कठिनाइयों का सामना
करना पड़ा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक
मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क)
और (ख). नायलोन फिलामेंट यार्न
के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस
प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ आवेदन-
पत्र सरकार के विचाराधीन हैं । जब
तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती उससे
पहले लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों के ब्यारे
प्रकाशित नहीं किये जाते ।

सीधे टेलीफोन सर्किट से जुड़े हुए देश

1513. श्री निहाल सिंह : क्या संचार
मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के साथ सीधे
टेलीफोन सर्किट से सम्पर्क कायम हो चुका
है; और

(ख) वर्ष 1981-82 में किन-किन
देशों के साथ सीधे टेलीफोन सर्किट से
सम्पर्क कायम करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री
योगेन्द्र मकवाणा) : (क) नीचे लिखे देशों का
भारत के साथ सीधा टेलीफोन सम्पर्क है :—

1. अफगानिस्तान
2. आस्ट्रेलिया
3. बहरीन
4. बंगलादेश
5. बेल्जियम
6. बर्मा
7. कनाडा
8. चीन
9. फ्रान्स
10. जर्मनी (संघीय गणराज्य)
11. यूनान (ग्रीस)
12. हांगकांग
13. ईरान
14. ईराक
15. इटली
16. जापान
17. केनिया
18. कुवैत
19. मलेशिया
20. नीदरलैंड
21. नाइजेरिया
22. ओमन
23. पाकिस्तान
24. फिलिपीन्स
25. कातार
26. रूमानिया
27. साउदी अरब
28. सिंगापुर
29. स्पेन
30. श्रीलंका
31. स्विट्जरलैंड

32. थाईलैण्ड

33. संयुक्त अरब अमीरात

34. ब्रिटेन

35. संयुक्त राज्य अमेरिका

36. सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ

37. यमन (जनवादी गणतन्त्र)

38. यूगोस्लाविया

39. जाम्बिया

(ख) तंजानिया के साथ वर्ष 1981-82 में 32,550 रु० की लागत पर सीधा टेलीफोन संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है।

Natural Gas Resources

1514. SHRI LAKSHMAN MALLICK: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have estimated the natural gas reserves in the country;

(b) if so, what is the total reserve of natural gas as per the latest estimate;

(c) when was the last estimate made; and

(i) Gas being supplied to Tea Gardens	22,000	SCMD
(ii) Contract with ASEB 3x15 MW Thermal Power Plant near Lakwa (Supply commenced with effect from 2-4-81)	2,30,000	..
(iii) Commitment made to ASEB 3x3 MW Mobile Generating Sets at Geleki (Supply commenced with effect from 17-3-81)	90,000	..
(iv) Gas earmarked for third phase expansion unit of Namrup Fertilizers Plant (likely to draw gas during 1983-84)	4,50,000	..
(v) Gas being utilised for production purposes in ONGC fields	35,000	..

Offshore :

The present policy of the Government is that, as far as practicable, gas should be utilised as feedstock for the

(d) the steps taken by Government for the proper utilisation of natural gas?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The proved and indicated balance recoverable reserves of natural gas as on 1-1-1981 were of the order of about 411 Billion Cubic Metres.

(d) Oil and Natural Gas Commission Onshore:

ONGC's present production of both associated and free gas from the Onshore areas is obtained from various fields situated in the States of Gujarat and Assam. Sustained efforts are on to increase utilisation of gas produced in different fields.

In Gujarat, almost the entire production of both associated and free gas stands committed to various consumers except for some low pressure gas which is used internally for production purposes. Besides, a plan has been formulated and is under implementation for connecting small isolated producing structures for collection and gathering of gas to the major consuming centres. It is also planned to ultimately compress the low pressure gas for utilisation.

Utilisation plan of ONGC gas in Assam is indicated below:

production of fertilizers, petrochemicals and for extraction of LPG, etc. To the extent the gas cannot be used immediately for these purposes it can be diverted for other purposes such